



## पंजाब से भागा अभियुक्त कानपुर पुलिस ने दबोचा

पंजाब पुलिस की सूचना पर देर रात ट्रेन की हुई चेकिंग  
एडीसीपी सोमेंद्र मीणा ने कई थानों के फ़ोर्स के साथ की घेराबंदी  
दो में से एक अभियुक्त मौका देखकर हुआ फरार  
सूचना मिलने पर देर रात कई थानों के फ़ोर्स ने ट्रेन को घेरा  
अपराध करने के बाद बिहार जाने की फिराक में थे अभियुक्त

कानपुर। पंजाब में किसी युवक का अपहरण करने के मुख्य अभियुक्त ट्रेन से बिहार भगने की फिराक में थे। पंजाब पुलिस की सूचना पर एक्टिव हुई कमिसनरेट कानपुर नगर पुलिस ने सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन की घेराबंदी कर ली। पंजाब पुलिस द्वारा भेजी गई एक अभियुक्त की फ़ोटो से उसे पकड़ लिया गया लेकिन दूसरा मौका देखकर कहीं भाग निकला।

मामला रविवार देर रात का है। लुधियाना पंजाब पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि 2 अभियुक्त जिनका नाम शत्रुघ्न कुमार और राकेश यादव है दोनों थाना मछियावड़ा जनपद लुधियाना पंजाब से अपहरण के मुकदमे में वांछित है और ट्रेन संख्या 02380 से बिहार भागने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के एडीसीपी सोमेंद्र मीणा भारी भरकम फ़ोर्स के साथ ट्रेन के कानपुर सेंट्रल आने के पहले ही पहुंच गये। जैसे प्लेटफ़ॉर्म नम्बर 5 पर ट्रेन आई वैसे ही उसकी घेराबंदी करके चेकिंग शुरू कर दी और कुछ ही देर में अभियुक्त को दबोच लिया।

पकड़े गये अभियुक्त की पहचान वैशाली बिहार निवासी शत्रुघ्न कुमार के रूप में हुई। पूछताछ में उसने बताया कि पंजाब पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिये वह भाग रहा था। उसने बताया कि उसके साथ ही दूसरा अभियुक्त राकेश यादव भी सफर कर रहा था। लेकिन प्लेट फ़ॉर्म में भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला। अभियुक्त के पकड़े जाने की सूचना पंजाब पुलिस को दे दी गई है। पंजाब पुलिस अभियुक्त को लेने कानपुर आ रही है।